

ॐ शांति

अष्ट शक्तिया

- 1★ सहन शक्ति:: सहन शक्ति द्वारा पारिवारिक सम्बन्धो की कडवाहट दूर होती है जिससे सम्बन्धो स्नेहमय और मीठे मधूर बनते हैं |
- 2★ समाने की शक्ति:: पारिवारिक जीवन में मान—अपमान,निंदा— स्तुति समा लेने से सम्बन्धो में मिठास आ जाती हैं |
- 3★ परस्व ने की शक्ति:: गृहस्थ जीवन में परस्व शक्ति से व्यवहार में कुशलता प्राप्त होती हैं |
- 4★ निर्णय शक्ति:: व्यवहारीक और व्यवसाहिक क्षेत्र समस्याओ के समय योग्य निर्णय होता हैं, जिससे टेन्शन मुक्त बन जाते हैं |
- 5★ सामना करने की शक्ति:: शारीरिक,प्राकृतिक समस्याओ का सामना कर दुःखो का निवारण कर शक्ते हैं, एवं विंता मुक्त हो शकते हैं |
- 6★ सहयोग की शक्ति:: योग से परमात्म शक्ति प्राप्त होती है कीसी अन्य को सहयोगी बन सहयोग ले शकते हैं, जिससे पहाड जैसा कोई कार्य या समस्या सहज ही पार कर शकते हैं |
- 7★ संकोचने की शक्ति:: मन के सारे संकल्पो को मन में संकोचे जा शकते हैं, जिससे कर्म कौशल्य प्राप्त होते हैं |
- 8★ समेटने की शक्ति:: गुणब्राह्मक बन जाने से पुरानि बाते/ संस्कार सहज ही भूलने की क्षमता प्राप्त होती हैं, जिससे मनकी स्थिरता प्राप्त होती है |.....